

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2015—आषाढ़ 12, शक 1937

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.